



# \*कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी\*

## \*प्रेस नोट\*

**\*दिनांक-31.01.2023\***

### \*थाना सिंधोरा पुलिस ने इंजन चोरी मामले में फरार दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद लोडर बरामद\*

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नेरट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29-01-2023 को थाना सिंधोरा पुलिस द्वारा डीजल इंजन चोरी करने वाले व चोरी का सामान खरीदने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से डीजल इंजन बरामद किया गया था। शेष फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.01.2023 को थाना सिंधोरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 18/2023 धारा 457,380,411,413 भा0द0वि0 में फरार अभियुक्तगण अनिल यादव व मोनू यादव को एक अदद लोडर (टाटा इन्ट्रा वी 10 लोडर वाहन नम्बर UP 65 KT 0170) के साथ टिकरा मोड़ से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंधोरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### \*पूछताछ विवरण-\*

अभियुक्तगण ने बताया कि - हम तीन साथियों मोनू उर्फ आशीष यादव, अनिल यादव व पांचू यादव ने साथ मिलकर अपनी जरूरत के खर्चों को पूरा करने के लिये मौका पाकर अपने ही गांव से डीजल इंजन व साफ्टीन पुल्ली 03 दिन पहले रात्रि में पम्पिंग सेट कमरे से ताला तोड़कर चोरी किये थे जिसे हम लोग अपने इसी टाटा विन्ट्रा लोडर वाहन में लादकर ले जाकर छिपाये थे और मौका पाकर इसे 29.01.2023 को कबाड़ी रितेश गुप्ता को महंगाव पोखरे के पास बेच रहे थे कि तभी आप लोग आ गये तो मौका पाकर हम दो साथी अनिल यादव तथा मोनू उर्फ आशीष यादव अपनी यह गाड़ी लेकर भाग गये थे।

### \*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1. अनिल यादव पुत्र स्व0 कैलाश यादव निवासी दीनदासपुर थाना सिन्धोरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।
2. मोनू उर्फ आशीष यादव निवासी धन्नू यादव निवासी दीनदासपुर थाना सिन्धोरा जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष।

**\*बरामदगी-\***

- एक अदद लोडर टाटा इन्ट्रा वी 10 (वाहन नम्बर UP 65 KT 0170)

**\*गिरफ्तारी टीम के सदस्य-\***

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, थाना सिन्धोरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 आशीष श्रीवास्तव, थाना सिन्धोरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 राकेश राम, थाना सिन्धोरा कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 विशाल कुमार, थाना सिन्धोरा कमिश्नरेट वाराणसी।

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*पुलिस उपायुक्त\***

**\*गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी\***

